



ATS VALLEY SCHOOL
EXPLORE LEARN LEAD

फ़तह



(जनवरी 2022)

हिंदी की मासिक पत्रिका

मेरी सुरक्षा, मेरी ज़िम्मेदारी

आदिमानव से हमने मानव रूप में विकास किया,
उन्नति को पाने का हर संभव प्रयास किया।



हमारे प्रयास ने अपना रंग जब दिखलाया,
तब धरती पर असाधारण-सा मशीनी युग आया।

पैदल चलना भूल मानव ने वाहन अपनाएं,
समय और श्रम दोनों को साथ-साथ वह बचाए।

सब ध्यान से अपने-अपने वाहन को चलाएँ,
इसके लिए सड़क सुरक्षा के विशेष नियम गए बनाए।

कब रुकना,कैसे चलना यह सब नियमों ने ज्ञान दिया,
सुरक्षा पाई उसने जिसने नियमों को जान लिया।

लेकिन लापरवाही का परिचय देकर मानव ने खुद को आजमाया।
दुखी और झकझोर देने वाली दुर्घटनाओं ने जन्म पाया।

मानव ने जल्दबाज़ी में सोचकर नियम को किया अनदेखा,
और खींच ली अपने हाथ में दुर्घटना की लाल रेखा।

दुर्घटना को कैसे रोके यह सड़क सुरक्षा नियम हमें बताते हैं,
फिर भी ना जाने उन्हें तोड़कर हम क्यों अपना भाग्य आजमाते हैं।

अपनी सुरक्षा है हमारी ज़िम्मेदारी यह बात सबको समझानी है,
इसी बात के लिए 11से17 जनवरी जाती जानी है।

इस पूरे सप्ताह में हमें सिखाया जाता है,

कि किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को सुरक्षा के लिए अपनाया जाता है।

इस बार फ़तह भी गा रही यही गीत है,

सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाना ही सुरक्षित जीवन की रीत है।



सड़क सुरक्षा की जानकारी एटीएस के विद्यार्थियों के पास अपार हैं,
सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति देखिए उनके क्या विचार हैं।

सड़क सुरक्षा है जीवन सुरक्षा,
यातायात के नियमों का पालन करो।
वाहन ज़्यादा रफ़्तार पर मत चलाओ,
दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहना करो।
वाहन चलाते समय नशे का सेवन मत करो,
सड़क पर ट्रैफ़िक नियमों का पालन करो।
मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है,
सड़क सुरक्षा है जीवन सुरक्षा।

मेहुल जैन(13)

जल्दबाज़ी करोगे तो पड़ेगी भारी,
संभल कर चलना नियमों के साथ,
क्योंकि मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी।

(ध्रुव चौहान 8अ)

सिग्नल मत तोड़ो,
जल्दबाज़ी छोड़ो।
ना हेलमेट के बिना कोई बंदा,
नहीं तो पड़ेगा पुलिस का डंडा।
सड़कों के रूल्स,
सुरक्षा के टूल्स।।

सक्षम (7अ)

सड़क सुरक्षा के नियमों का करो सदैव पालन,
सीखो और सिखाओ देश में सुरक्षित रहने का कारण।
सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही नहीं अब हमारी भी है ज़िम्मेदारी निभाने की बारी,
तभी तो हम गर्व से कह सकेंगे कि मेरी सुरक्षा ही है मेरी ज़िम्मेदारी।

आकांक्षा वर्मा(8अ)

मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है,
चाहे सड़क सुरक्षा है या फिर
कोई बीमारी है।

एजेल(5अ)

मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है,
पालन जब सुरक्षा नियमों का साथ में है।

करणवीर(4ब)

अगर ट्रैफ़िक नियमों पर नहीं देंगे ध्यान,
तो ट्रैफ़िक पुलिस काटेगी आपका चालान।

आयान(4अ)

हम सबको समझनी होगी अपनी ज़िम्मेदारी,
नियमों का पालन करना,
सीट बेल्ट, हेलमेट पर ध्यान धरना।

अधृत् पंवार (1अ)

सड़क सुरक्षा नियम को अपनाए,
वाहन को समझदारी से चलाएं,
अपना जीवन सुरक्षित बनाएं।

कीथ हुसैन(6अ)

अपनी सुरक्षा है हमारी ज़िम्मेदारी,
वरना पड़ सकता है भारी।

आयुषी राजपूत(5अ)




सुनो! सुनो! पापा, मम्मी और दीदी,भैया,अंकल,आंटी।
बात बताती हूँ एक पते की। निकलो घर से जब तुम
पहनो हेलमेट,लगाओ सीट बेल्ट।
ज़रूर वापस आना मुझसे मिलना और गले लगाना।
संभव होगा यह हो तब जब मानोगे बात हमारी,
क्योंकि मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी।

अमायरा शर्मा(2ब)

सड़क सुरक्षा नियमों से ना करना माप-तोल,
नियम पालन है आसान और जीवन अनमोल।

ज़ोहैन(3अ)



सीट बेल्ट और हेलमेट से करो अपनी रक्षा,
सबसे आवश्यक अपनी सुरक्षा।

पृषा सैनी (2ब)

जब भी सड़क पार करो ,
क्रॉसिंग का इस्तेमाल करो।
इधर-उधर देख कर चलो,
छोटी-सी चूक भी पड़ सकती है भारी,
मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी।

गोबिंददीप(4अ)

इधर देखो, उधर देखो ,
देखो आजू-बाजू।
सारे नियम जानकर सड़क करना पार,
अपने ऊपर यह नियम लागू करना हर बार।

प्रद्युमन भारद्वाज(4ब)

